



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

प्रयागराज, मंगलवार, 08 अप्रैल, 2025 ई०
(चैत्र 18, 1947 शक संवत्)

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत एवं नगरीय निकाय), प्रयागराज

संख्या-82/जि०नि०का०(प० एवं न०नि०)/न०प०उ०नि०-2025/सा०सू०/2025

दिनांक : 08 अप्रैल, 2025 ई०

सार्वजनिक सूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अधिसूचना संख्या-67/रा०नि०आ०-4/न०नि०/04-25/2025, दिनांक 07 अप्रैल, 2025 के क्रम में मैं, रविन्द्र कुमार माँदड़, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), प्रयागराज जनपद-प्रयागराज की नगर पंचायत सिरसा के वार्ड संख्या 6-पुरा जगन्नाथ के सदस्य पद (आरक्षण श्रेणी-अनारक्षित) का उप निर्वाचन निम्नलिखित समय-सारणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश देता हूँ:-

समय-सारणी

नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अवधि	नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय	अभ्यर्थन वापसी का दिनांक व समय	प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
10 अप्रैल, 2025 से 15 अप्रैल, 2025 तक (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	16 अप्रैल, 2025 (बुधवार) (पूर्वाह्न 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	19 अप्रैल, 2025 (शनिवार) (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	21 अप्रैल, 2025 (सोमवार) (पूर्वाह्न 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	02 मई, 2025 (शुक्रवार) (प्रातः 07.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक)	05 मई, 2025 (सोमवार) (प्रातः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, संवीक्षा, अभ्यर्थन की वापसी एवं प्रतीक आवंटन का स्थान

क्र० सं०	पद जिसके लिए उप निर्वाचन होना है	नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करना		नाम निर्देशन-पत्र की संवीक्षा		अभ्यर्थन की वापसी		प्रतीक आवंटन	
		स्थान	निर्वाचन अधिकारी / सहायक निर्वाचन अधिकारी	स्थान	किस अधिकारी द्वारा संवीक्षा की जानी है	स्थान	किस अधिकारी द्वारा किया जाना है	स्थान	किस अधिकारी द्वारा किया जाना है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नगर पंचायत सिरसा (सदस्य पद वार्ड संख्या 6-पुरा जगन्नाथ)	न्यायालय नायब तहसीलदार लालतारा कक्ष, मेजा, प्रयागराज	रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारी	तदैव	रिटर्निंग अधिकारी	तदैव	रिटर्निंग अधिकारी	तदैव	रिटर्निंग अधिकारी

2—रिटर्निंग अधिकारी सम्बन्धित नगरीय निकाय के वार्ड के उप निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना दिनांक 10 अप्रैल, 2025 को जारी करेंगे और उसकी प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को भेजेंगे। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सूचना निर्गत करने के दिनांक से नामांकन-पत्रों का विक्रय किया जायेगा।

3—उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), प्रयागराज तथा सम्बन्धित स्थान/पद के रिटर्निंग अधिकारी तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी उक्त कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार-पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराते हुये व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे। जन समान्य की जानकारी हेतु अपने कार्यालय तथा सम्बन्धित नगरीय निकाय के मुख्यालय के सूचना पट्ट पर भी सार्वजनिक सूचना की एक प्रति चिपकवा कर प्रदर्शित भी करायेंगे।

4—नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने, नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा, अभ्यर्थन वापस लेने, प्रतीक आवंटन एवं मतगणना की कार्यवाही सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तहसील मुख्यालय मेजा में न्यायालय नायब तहसीलदार लालतारा कक्ष पर की जायेगी।

5—यह उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा।

6—नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु आयोग द्वारा निर्धारित उपर्युक्त समय-सारिणी के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सभी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

रविन्द्र कुमार माँदड़,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत एवं नगरीय निकाय),
प्रयागराज।